

वैज्ञानिक अनुसंधान में पिछड़ता देश

प्रमोद भार्गव

यह अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने भूवनेश्वर में विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन समारोह में यह स्वीकारने में कोई हिचक नहीं दिखाई कि हम वैज्ञानिक अनुसंधान के मामले में चीन से पिछड़ गए हैं। लेकिन यह दुखद है कि नितांत मौलिक चिंतन से जुड़ी इस समस्या का समाधान वे निजीकरण और शोध खर्च को बढ़ावा देने में तलाश रहे हैं।

इस संदर्भ में फोर्ब्स की उस सूची का ज़िक्र करना ज़रूरी है, जो बीते साल के अंत में जारी हुई थी और जिसमें उन देशज वैज्ञानिक आविष्कारकों को शामिल किया गया था, जिन्होंने ग्रामीण पृष्ठभूमि से होने के बावजूद ऐसी अनूठी तकनीकें व उपकरण ईजाद किए थे, जिन्हें अपनाकर देश भर के लोगों को जीवन में बदलाव के अवसर मिले। यहां आश्चर्य में डालने वाली बात यह भी है कि इनमें से ज्यादातर लोगों ने प्राथमिक स्तर की भी शिक्षा हासिल नहीं की है। इसलिए ज़रूरी है कि अनुसंधान के अवसर उन लोगों को मुहैया कराएं जो वाकई इसका मादा रखते हैं।

विज्ञान आधुनिक प्रगति की आधारशिला है। नतीजतन जो देश विज्ञान को जितना महत्व देता है, प्रगति के उतने ही सोपान आगे बढ़ता है। लेकिन इस रिश्ते का संतुलन कायम रखने में हम पिछड़ते जा रहे हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नवउदारवादी अर्थव्यवस्था लागू होने के बाद हमने न केवल आर्थिक विकास पर ज़ोर दिया, बल्कि उन शैक्षिक बुनियादी ढांचों को भी बाज़ारवाद के हवाले करते चले गए जिनका मकसद प्रतिभाओं का परिमार्जन और मौलिक चिंतन के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना होना चाहिए था। प्रधानमंत्री ने इस कमज़ोर नस को पकड़ा है। वे कहते हैं - अनुसंधान से नई जानकारी मिलती है और हमें समाज के लाभ के लिए इस जानकारी का इर्तेमाल करते हुए नवाचार की ज़रूरत भी है।

ज़ाहिर है परमाणु शक्ति संपत्र होने और अंतरिक्ष में उपरिथित दर्ज कराने के बावजूद कुल मिलाकर विज्ञान के

क्षेत्र में हम अन्य देशों की तुलना में पीछे हैं। मानव विकास दर में हम 95वें स्थान पर हैं। भूख और कृपोषण हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे। किसानों की आत्महत्या का सिलसिला जारी है और बेराज़गारों की फौज में लगातार इज़ाफा हो रहा है। आर्थिक असमानता की खाई लगातार बढ़ती जा रही है। आर्थिक व सामाजिक विशेषज्ञों का दावा है कि ये हालात निजीकरण की देन हैं।

फिर भी प्रधानमंत्री वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने के लिए निजीकरण की राह तलाश रहे हैं। शायद उनके पास सभी मर्ज़ की एक ही दवा है, निजीकरण! इसीलिए उन्होंने पूंजीपत्रियों से आव्हान किया है कि वे वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने के लिए आगे आएं। प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास पर खर्च होने वाली राशि में बढ़ोतरी की मंशा भी जताई है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम साल में इसे दुगना किया जा सकता है। ज़ाहिर है, इसमें ऐसे प्रावधान ज़रूर किए जाएंगे, जो औद्योगिक घरानों के हित साधने वाले होंगे। तथा है अनुसंधान की बड़ी राशि इन घरानों को अनुसंधान के बहाने अनुदान में दिए जाने के रस्ते खोल दिए जाएंगे।

फोर्ब्स द्वारा जारी देशज आविष्कारकों और आविष्कारों की जानकारी से इस बात की पुष्टि हुई है कि देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। लेकिन शालेय व अकादमिक शिक्षा व कृशल-अकृशल की परिभाषाओं से ज्ञान के वर्गीकरण के चलते केवल काग़जी काम से जुड़े डिग्रीधारियों को ज्ञानी और परंपरागत ज्ञान आधारित कौशल-दक्षता रखने वाले शिल्पकारों और किसानों को अज्ञानी व अकृशल ही माना जाता है।

यही कारण है कि हम ऐसे शोध को सर्वथा नकार देते हैं, जो स्थानीय स्तर पर ऊर्जा, सिंचाई, मनोरंजन और खेती की वैकल्पिक प्रणालियों से जुड़े हैं। ऐसे में यदि प्रधानमंत्री के इस कथन को चरितार्थ करना है कि 'नवाचार को व्यावहारिक सार्थकता देनी होगी, ताकि यह सिर्फ शाब्दिक

खेल बनकर न रह जाएँ', तो फोर्ब्स की सूची में दर्ज ग्रामीण आविष्कारकों और आविष्कारों को प्रोत्साहित करना होगा। इन 'आम' वैज्ञानिकों ने आम लोगों की ज़रूरतों के मुताबिक स्थानीय संसाधनों से सरते उपकरण व तकनीकें ईजाद कर समाज व विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया है।

इस सूची में दर्ज मनसुख भाई जगनी ने मोटर साइकिल आधारित ट्रैक्टर विकसित किया है जिसकी कीमत महज 20 हजार रुपए है। केवल दो लीटर ईंधन से यह ट्रैक्टर आधे घंटे के भीतर एक एकड़ भूमि जोतने की क्षमता रखता है। इसी क्रम में मनसुखभाई पटेल ने कपास छठाई की मशीन तैयार की है। इसके उपयोग से कपास की खेती की लागत में उल्लेखनीय कमी आई है। इस मशीन ने भारत के कपास उद्योग में क्रांति ला दी है। इसी नाम के तीसरे व्यक्ति मनसुख भाई प्रजापति ने मिट्टी से बना रेफ्रिजरेटर तैयार किया है। यह फ्रिज उन लोगों के लिए वरदान है, जो फ्रिज नहीं खरीद सकते अथवा बिजली की सुविधा से वंचित हैं।

ट्रोइका फार्मा के एमडी केतन पटेल ने दर्द निवारक डिक्लोफेनैक इंजेक्शन तैयार किया है। ठेठ ग्रामीण दादाजी रामाजी खोबरागड़े भी एक ऐसे आविष्कारक के रूप में सामने आए हैं, जिन्होंने चावल की नई किस्म एचएमटी तैयार की है। यह पारंपरिक किस्मों के मुकाबले 80 फीसदी ज्यादा पैदावार देती है। इसी तरह मदनलाल कुमावत ने ईंधन की कम खपत वाला थेशर विकसित किया है, जो कई फसलों की थेशिंग करने में सक्षम है। 'लक्ष्मी आसू' मशीन के जनक चिंताकिंडी मल्लेश्याम का यह यंत्र बुनकरों के

लिए वरदान साबित हो रहा है। यह मशीन एक दिन में छह साड़ियों की डिज़ाइनिंग करने की क्षमता रखती है।

नवाचार के ऐसे जो भी प्रयोग देश में जहां भी हो रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है क्योंकि इन्हीं देशज उपकरणों की मदद से हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सकते हैं, और किसानों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में कदम उठा सकते हैं।

लेकिन देश के ऐसे होनहार वैज्ञानिकों पर शैक्षिक अयोग्यता का ठप्पा चर्पा कर नौकरशाही इनके प्रयोगों को मान्यता दिलाने की राह में प्रमुख रोड़ा है। इसके लिए शिक्षा प्रणाली में समुचित बदलाव की ज़रूरत है। हमारे यहां पढ़ाई की प्रकृति ऐसी है कि उसमें खोजने-परखने, सवाल-जवाब करने और व्यवहार के स्तर पर मैदानी प्रयोग व विश्लेषण की छूट देने की बजाय तथ्यों, आंकड़ों, सूचनाओं और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की घुट्टी पिलाई जाती है। यह स्थिति वैज्ञानिक घेतना व दृष्टि विकसित करने में बाधक है।

प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिक नवाचार के लिए बजट प्रावधान दुगना करने का जो प्रस्ताव रखा है, उसमें देशज वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान देने की शर्त भी रखी जानी चाहिए। हमारे यहां वैज्ञानिक अनुसंधानों पर जीडीपी का जो खर्च महज 0.9 फीसदी है, उसे 2017 में दुगना किए जाने पर, देशज वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन राशि बतौर अनुदान देने की व्यवस्था होनी चाहिए और उनके अनुसंधानों को वैज्ञानिक संस्थानों में परीक्षण की मान्यता मिलना चाहिए।
(स्रोत फीचर्स)

अगले अंक में

● पोलियो उन्मूलन का संदिग्ध दावा



● कसावा यानी गर्म देशों की रोटी

● वैकल्पिक ऊर्जा का नया स्रोत: कोल बेड मीथेन

● मलेरिया: चीन की उपलब्धि को मान्यता

● सबसे बूढ़ा जीव हरा-भरा है



स्रोत अप्रैल 2012

अंक 279